

## अध्याय 3

# परमाणु एवं अणु

### बहुविकल्पीय प्रश्न

1. निम्नलिखित में से कौन-सा  $360\text{g}$  जल को सही रूप में प्रदर्शित करता है?
  - (i) 2 मोल जल
  - (ii) 20 मोल जल
  - (iii) जल के  $6.022 \times 10^{23}$  अणु
  - (iv) जल के  $1.2044 \times 10^{25}$  अणु
    - (a) (i)
    - (b) (i) तथा (iv)
    - (c) (ii) तथा (iii)
    - (d) (ii) तथा (iv)
2. एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है?
  - (a) परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं।
  - (b) परमाणु मूल इकाइयाँ हैं जिनसे अणुओं और आयनों का निर्माण होता है।
  - (c) परमाणु सदैव उदासीन प्रकृति के होते हैं।
  - (d) परमाणु बड़ी संख्या में परस्पर जुड़कर पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे हम देख, अनुभव या स्पर्श कर सकते हैं।
3. नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक है—
  - (a) Ni
  - (b) N<sub>2</sub>
  - (c) N<sup>+</sup>
  - (d) N
4. सोडियम का रासायनिक प्रतीक है—
  - (a) So
  - (b) Sd
  - (c) NA
  - (d) Na
5. निम्नलिखित में किसका भार सबसे अधिक होगा?
  - (a) सूक्ष्मोस ( $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ ) के 0.2 मोल
  - (b) CO<sub>2</sub> के 2 मोल
  - (c) CaCO<sub>3</sub> के 2 मोल
  - (d) H<sub>2</sub>O के 10 मोल

- 6.** निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी?
- $\text{H}_2\text{O}$  के  $18\text{g}$
  - $\text{O}_2$  के  $18\text{g}$
  - $\text{CO}_2$  के  $18\text{g}$
  - $\text{CH}_4$  के  $18\text{g}$
- 7.** निम्नलिखित में से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम होगी?
- $1\text{g CO}_2$
  - $1\text{g N}_2$
  - $1\text{g H}_2$
  - $1\text{g CH}_4$
- 8.** ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है—
- $\frac{16}{6.023 \times 10^{23}}\text{g}$
  - $\frac{32}{6.023 \times 10^{23}}\text{g}$
  - $\frac{1}{6.023 \times 10^{23}}\text{g}$
  - 8u
- 9.** एक बीकर में  $3.42\text{ g}$  सूक्ष्मोस को  $18\text{g}$  जल में विलेय किया जाता है। विलयन में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या है—
- $6.68 \times 10^{23}$
  - $6.09 \times 10^{22}$
  - $6.022 \times 10^{23}$
  - $6.022 \times 10^{21}$
- 10.** भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है—
- केवल जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है
  - केवल जब तंत्र से ऊर्जा ले ली जाती है
  - जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है
  - बिना किसी ऊर्जा परिवर्तन के

### लघुउत्तरीय प्रश्न

- 11.** निम्नलिखित में से कौन-सा सही रासायनिक सूत्र प्रदर्शित करता है? इसका नाम दीजिए।
- $\text{CaCl}$
  - $\text{BiPO}_4$
  - $\text{NaSO}_4$
  - $\text{NaS}$

- 12.** निम्नलिखित यौगिकों के आण्विक सूत्र लिखिए—
- कॉपर (II) ब्रोमाइड
  - एल्युमिनियम (III) नाइट्रोट
  - कैल्सियम (II) फॉस्फेट
  - आयरन (III) सल्फाइड
  - मर्करी (II) क्लोराइड
  - मैग्नीशियम (II) एसीटेट
- 13.** निम्नलिखित आयनों के संयोग से बनने वाले सभी यौगिकों के आण्विक सूत्र लिखिए—
- $$\text{Cu}^{2+}, \text{Na}^+, \text{Fe}^{3+}, \text{Cl}^-, \text{SO}_4^{2-}, \text{PO}_4^{3-}$$
- 14.** निम्नलिखित यौगिकों में उपस्थित (यदि कोई हो) धनायनों और ऋणायनों को लिखिए—
- $\text{CH}_3\text{COONa}$
  - $\text{NaCl}$
  - $\text{H}_2$
  - $\text{NH}_4\text{NO}_3$
- 15.** तत्वों के निम्नलिखित समुच्चयों से बनने वाले यौगिकों के सूत्र दीजिए—
- कैल्सियम और फ्लुओरीन
  - हाइड्रोजन और सल्फर
  - नाइट्रोजन और हाइड्रोजन
  - कार्बन और क्लोरीन
  - सोडियम और ऑक्सीजन
  - कार्बन और ऑक्सीजन
- 16.** तत्वों के निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन से गलत हैं? उनके सही प्रतीक दीजिए।
- कोबाल्ट CO
  - कार्बन C
  - एल्युमिनियम AL
  - हीलियम He
  - सोडियम So
- 17.** निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र दीजिए और प्रत्येक के लिए उसके संयोजी तत्वों के द्रव्यमानों के संदर्भ में अनुपात का परिकलन कीजिए (आप परिशिष्ट-III का उपयोग कर सकते हैं)
- अमोनिया
  - कार्बन मोनोक्साइड
  - हाइड्रोजन क्लोराइड
  - एल्युमिनियम फ्लुओराइड
  - मैग्नीशियम सल्फाइड

- 18.** निम्नलिखित में से प्रत्येक रासायनिक स्पीशीज़ के लिए उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या बताइए—
- $\text{CO}_3^{2-}$
  - $\text{PO}_4^{3-}$
  - $\text{P}_2\text{O}_5$
  - $\text{CO}$
- 19.** जल के द्रव्यमान में न्यूट्रॉनों का अंश कितना होता है?
- 20.** क्या ताप के साथ पदार्थ की विलेयता परिवर्तित होती है? एक उदाहरण के साथ समझाइए।
- 21.** निम्नलिखित में से प्रत्येक को उसकी परमाणुकता के आधार पर वर्गीकृत कीजिए—
- |                            |                               |                          |                            |                   |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| (a) $\text{F}_2$           | (b) $\text{NO}_2$             | (c) $\text{N}_2\text{O}$ | (d) $\text{C}_2\text{H}_6$ | (e) $\text{P}_4$  |
| (f) $\text{H}_2\text{O}_2$ | (g) $\text{P}_4\text{O}_{10}$ | (h) $\text{O}_3$         | (i) $\text{HCl}$           | (j) $\text{CH}_4$ |
| (k) He                     | (l) Ag                        |                          |                            |                   |
- 22.** आपको सफेद रंग का एक महीन चूर्ण दिया गया है जो शक्कर या नमक हो सकता है। बिना चखे आप इसकी पहचान कैसे करेंगे?
- 23.** 12g द्रव्यमान वाले मैग्नीशियम रिबन में मैग्नीशियम के मोलों की संख्या परिकलित कीजिए। मैग्नीशियम का मोलर परमाणु द्रव्यमान 24g प्रति मोल है।

### दीर्घउत्तरीय प्रश्न

- 24.** परिकलन द्वारा प्रमाणित कीजिए कि—
- 5 मोल  $\text{CO}_2$  और 5 मोल  $\text{H}_2\text{O}$  के द्रव्यमान समान नहीं होते।
  - 240g कैल्सियम और 240g मैग्नीशियम तत्वों का मोल अनुपात 3:5 है।
- 25.** निम्नलिखित यौगिकों के संयोजी तत्वों का उनके द्रव्यमान के संदर्भ में अनुपात ज्ञात कीजिए (आप परिशिष्ट-III का उपयोग कर सकते हैं)—
- |                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| (a) $\text{CaCO}_3$         | (d) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ |
| (b) $\text{MgCl}_2$         | (e) $\text{NH}_3$                   |
| (c) $\text{H}_2\text{SO}_4$ | (f) $\text{Ca}(\text{OH})_2$        |
- 26.** कैल्सियम क्लोराइड को जब जल में विलेय किया जाता है, तो यह निम्नलिखित समीकरण के अनुसार अपने आयनों में वियोजित हो जाता है।
- $$\text{CaCl}_2 \text{ (aq)} \rightarrow \text{Ca}^{2+} \text{ (aq)} + 2\text{Cl}^- \text{ (aq)}$$
- $\text{CaCl}_2$  से प्राप्त आयनों की संख्या का परिकलन कीजिए, जब जल में इसके 222g विलेय किए जाते हैं।
- 27.** प्रत्येक सोडियम परमाणुओं और सोडियम आयनों के 100 मोल द्रव्यमानों में अंतर 5.48002g होता है। एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना कीजिए।
- 28.** सिनबार ( $\text{HgS}$ ), मर्करी का एक प्रमुख अयस्क है। 225g शुद्ध  $\text{HgS}$  में कितने ग्राम मर्करी के कण विद्यमान होते हैं?  $\text{Hg}$  और  $\text{S}$  के मोलर द्रव्यमान क्रमशः  $220.6 \text{ mol}^{-1}$  और  $32 \text{ mol}^{-1}$  हैं।

29. एक स्टील के पेंच का द्रव्यमान  $4.11\text{ g}$  है। स्टील के इन पेंचों के एक मोल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इस मान की तुलना पृथ्वी के द्रव्यमान ( $5.98 \times 10^{24}\text{ kg}$ ) से कीजिए। इनमें से कौन-सा भारी है और कितने गुना?
30. विटामिन C के एक नमूने में  $2.58 \times 10^{24}$  ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित हैं। इस नमूने में ऑक्सीजन परमाणुओं के कितने मोल उपस्थित हैं?
31. रैनक ने कार्बन परमाणुओं के 5 मोल एक पात्र में लिये और कृष ने सोडियम परमाणुओं के 5 मोल समान भार वाले दूसरे पात्र में लिये। (a) किसका पात्र भारी है? (b) किसके पात्र में परमाणुओं की संख्या अधिक है?
32. सारणी 3.1 के रिक्त स्थानों में आंकड़े भरिए।

**सारणी 3.1**


स्पीशीज़	$\text{H}_2\text{O}$	$\text{CO}_2$	Na परमाणु	$\text{MgCl}_2$
गुण				
मोलों की संख्या	2	—	—	0.5
कणों की संख्या	—	$3.011 \times 10^{23}$	—	—
द्रव्यमान	36 g	—	115 g	—

33. दृश्य ब्रह्मांड में अनुमानित  $10^{22}$  तारे हैं। दृश्य ब्रह्मांड में तारों के कितने मोल उपस्थित हैं?
34. एक मात्रक के निम्नलिखित गुणज और उपगुणज के लिए प्रत्येक का SI पूर्वलग्न क्या है?  
 (a)  $10^3$  (b)  $10^{-1}$  (c)  $10^{-2}$  (d)  $10^{-6}$  (e)  $10^{-9}$  (f)  $10^{-12}$
35. निम्नलिखित में से प्रत्येक को किलोग्राम में व्यक्त कीजिए—  
 (a)  $5.84 \times 10^{-3}$  mg (b) 58.34 g  
 (c) 0.584 g (d)  $5.873 \times 10^{-21}$  g
36.  $10^3$  मोल मैग्नीशियम परमाणुओं तथा मैग्नीशियम आयनों के द्रव्यमानों के अंतर का परिकलन कीजिए।  
 (एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान =  $9.1 \times 10^{-31}$  kg)
37. किसमें परमाणुओं की संख्या अधिक है?  
 $\text{N}_2$  के 100 g में अथवा  $\text{NH}_3$  के 100 g में
38. 5.85 g सोडियम क्लोराइड में उपस्थित आयनों की संख्या परिकलित कीजिए।
39. गोल्ड के एक नमूने में 90% गोल्ड और शेष कॉपर है। गोल्ड के इस नमूने के एक ग्राम में गोल्ड के कितने परमाणु उपस्थित हैं?
40. आयनिक तथा आणिक यौगिक क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए।
41. एक मोल एल्युमिनियम परमाणुओं और इसके एक मोल आयनों के द्रव्यमानों में अंतर को परिकलित कीजिए। (एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान  $9.1 \times 10^{-28}$  g है।) इनमें से कौन-सा अधिक भारी है?

- 42.** 'm'g द्रव्यमान के एक सिल्वर के आभूषण को सिल्वर के 1% द्रव्यमान तुल्य गोल्ड से पॉलिश किया गया। आभूषण में गोल्ड और सिल्वर के परमाणुओं की संख्याओं के अनुपात को परिकलित कीजिए।
- 43.** ईथेन ( $C_2H_6$ ) गैस के एक नमूने का वही द्रव्यमान है, जो मीथेन ( $CH_4$ ) के  $1.5 \times 10^{20}$  अणुओं का होता है। गैस के नमूने में कितने  $C_2H_6$  अणु हैं?
- 44.** रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—
- एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है। यह \_\_\_\_\_ कहलाता है।
  - निश्चित आवेशयुक्त परमाणुओं का समूह \_\_\_\_\_ कहलाता है।
  - $Ca_3(PO_4)_2$  का सूत्र इकाई द्रव्यमान \_\_\_\_\_ है।
  - सोडियम कार्बोनेट का सूत्र \_\_\_\_\_ है और अमोनियम सल्फेट का सूत्र \_\_\_\_\_ है।
- 45.** निम्नलिखित वर्ग पहेली (चित्र 3.1) को रासायनिक तत्वों के नामों का उपयोग कर पूरा करें। सारणी 3.2 में दिए आँकड़ों को उपयोग में लें। **नोट:** वर्ग पहेली को अंग्रेजी अक्षरों द्वारा भरें।

### सारणी 3.2


बाएँ से दाएँ	ऊपर से नीचे
<p>2. रदफोर्ड द्वारा उनके <math>\alpha</math>-प्रकीर्णन प्रयोग में लिया गया तत्व।</p> <p>3. तत्व जो नम वायु में खुला रहने पर जंग बनाता है।</p> <p>5. एक बहुत अभिक्रियाशील अधातु जिसे जल में रखा जाता है।</p> <p>7. जब जिंक धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ उपचारित किया जाता है तो एक गैस बनती है जो जलती हुई तीली के साथ विस्फोटन की ध्वनि उत्पन्न करती है।</p>	<p>1. आभूषण बनाने में उपयोग में लिया जाने वाला चमकीला धातु और जो नम वायु की उपस्थिति में बदरंग होकर काला पड़ जाता है।</p> <p>4. पीतल और कांसा दोनों इस धातु के मिश्रातु हैं।</p> <p>6. तत्व, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है।</p> <p>8. तत्व जिसका प्रतीक Pb है।</p>



- 46. (a)** इस वर्ग पहली (चित्र 3.2) में 11 तत्वों के नाम छिपे हैं। इनके प्रतीक नीचे दिए गए हैं। पहली को अंग्रेजी अक्षरों द्वारा पूरा कीजिए।

1. Cl
2. H
3. Ar
4. O
5. Xe
6. N

7. He
8. F
9. Kr
10. Rn
11. Ne



अक्रिय गैस

- (b)** इस वर्ग पहली से अक्रिय गैसों की कुल संख्या और उनके नामों की पहचान कीजिए।
- 47.** निम्नलिखित के सूत्र लिखें और प्रत्येक का आण्विक द्रव्यमान परिकलित कीजिए।
- (a) कास्टिक पोटाश
  - (b) बैकिंग पाउडर
  - (c) चूने का पथर
  - (d) कास्टिक सोडा
  - (e) एथनॉल
  - (f) साधारण नमक
- 48.** प्रकाशसंश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, जल के समान संख्या में अणुओं से जटिल अभिक्रियाओं की एक शृंखला के माध्यम से संयोग कर  $C_6H_{12}O_6$  आण्विक सूत्र वाला ग्लूकोस का एक अणु देते हैं।  $18g$  ग्लूकोस बनाने के लिए कितने ग्राम जल की आवश्यकता होगी? जल का घनत्व  $1\text{ g cm}^{-3}$  मानते हुए काम में आये जल का आयतन परिकलित कीजिए।